

Corporate Office: Infocity, A-24, Sector 34 Gurugram 122 001, Haryana, India Tel: +91 (124) 4916500 www.niitmts.com

April 10, 2024

The Manager BSE Limited

Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 The Manager
National Stock Exchange of India Limited
Listing Department,
Exchange Plaza,
5th Floor, Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051

Email: info@niitmts.com

Subject: Intimation under Regulation 47 read with Regulation 30(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Newspaper Publication of Postal Ballot Notice 2024

Scrip Code: BSE - 543952; NSE - NIITMTS

Dear Sir/Madam,

This is in continuation to our letter dated April 9, 2024, informing dispatch of Postal Ballot Notice to the members of the Company for seeking their approval, by way of remote e-Voting process, by passing the resolutions, as set out in the Notice.

In this regard, please be informed that the Company has published newspaper advertisements on April 10, 2024, in Financial Express (English edition) and Jansatta (Hindi edition). Please find attached herewith a copy of the newspaper publications for your record.

Thanking you,

Yours truly,

For NIIT Learning Systems Limited

Deepak Bansal

Seelah Barn

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: a/a

FINANCIAL EXPRESS

Mutual Fund investments are subject to market risks, read

MUTUAL Sahi Ha



Investment Manager: Groww As (formerly known as Indiabulls Asse (CIN - U65991KA2008F

Registered Office: Vaishnavi Tech Park, South Tou Ambalipura Village, Varthur Hobli, Bellandur, Bangalore S

Notice cum Addendum

Disclosure / Hosting of Half Yearly Portfolio of the Schen known as Inidabulis Mutual Fund) (IBMF):

All unit holders of Groww Mutual Fund (formerly known as India terms of Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 15 time to time, the Half Yearly Portfolio for the period ended Mary have been hosted on the website of Groww Mutual Fund (www.g Investors / Unit holders can request for a physical or electronic of following modes at free of cost:

- 1. Email :- Send an email to support@growwmf.in
- 2. Letter: Submit a letter at any of the AMC offices or Investor \$ our website (www.growwmf.in).
- 3. Contact us at Investor Service helpline no. 8050180222

Note: This Notice cum addendum forms an integral part of the SID. and conditions as mentioned in the SID, KIM of all the above me

As per the Go Green Initiative, investors are encouraged to re. with us to support paper less communications.

For Groww Asset Management Ltd. (formerly known as Indiabulls A Investment Manager to Groww Mutual Fund (formerly known as Ind.)

Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, re

Canara Robeco Mutual Fund

Investment Manager: Canara Robeco Asset Management Co. Ltdr Construction House, 4th Floor, 5, Walchand Hirachand Marg, Ba Tel.: 6658 5000 Fax: 6658 5012/13 www.canararobeco.com CII

NOTICE NO.

Disclosure of Half-Yearly Statement of Scheme Portfolio of C

All unit holders of Canara Robeco Mutual Fund are requested Circular for Mutual Funds dated May 19, 2023 as amended fi scheme portfolio (along with ISIN, scheme risk-o-meter, name of Canara Robeco Mutual Fund for the period ended March !



MANAGED NIIT LEARNING SYSTEMS LIMITED

TRAINING Read, Office: Plot No. 85, Sector 32, Institutional Area SERVICES Gurugram - 122001 (Haryana)

CIN: L72200HR2001PLC099478; Ph. No.: 0124- 4293000 Website: www.niitmts.com; Email: investors@niitmts.com

Postal Ballot Notice

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), each as amended, and in accordance with the requirements prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding general meetings/ conducting postal ballot process through e-Voting, vide General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, and latest being General circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 ("MCA Circulars") and the Listing Regulations and other applicable circulars and notifications issued (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), the Company has sent the Postal Ballot Notice on Tuesday, April 09, 2024 in electronic mode only, to all those Members whose names appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from the Depositories as on Friday, April 05, 2024 i.e. Cut-off date. The requirement of sending physical copy of the Postal Ballot Notice to the Members has been dispensed with vide MCA Circulars. In terms of MCA Circulars, the communication of the assent or dissent of the members would take place only through the remote e-voting system.

The Company is providing facility to its members to cast their votes remotely, using the electronic voting system ("remote e-voting") through National Securities Depositories Limited ('NSDL').

The documents pertaining to the business to be transacted through Postal Ballot Notice and referred therein, shall be available electronically for inspection by members upon request to the Company by sending email at investors@niitmts.com.

Members are requested to register/ update their email addresses with their Depository Participants.

A person whose name is recorded in the Register of Members / List of Beneficial Owners (in case of electronic shareholding) maintained by the depositories as on the cut-off date shall be eligible to cast vote by remote e-voting only. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date. The remote e-voting period shall commence on Thursday, April 11, 2024 (9:00 A.M. IST) and ends on Friday, May 10, 2024 (5:00 P.M. IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the votes on resolutions are cast by the members, it shall not be permitted to change subsequently.

The remote e-voting facility provided by NSDL is available to the members at the link www.evoting.nsdl.com which would enable the Members to cast their votes electronically.

Detail instructions and information relating to remote e-voting and registration of email addresses are set out in the Postal Ballot Notice sent to the Members and available on the website of the Company i.e. www.niitmts.com

Mr. Milan Malik (Membership No. FCS 9888 and QOP No. 16614), Practicing Company Secretaryor falling him, Mr. Sanjay Chandak (Membership No. FCS 5065 and COP No. 3691), Practicing Company Secretary, have been appointed as the scrutinizer to conduct the postal ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The Resolutions, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of e-voting i.e. May 10, 2024. The result of the Postal Ballot shall be declared by the Chairman of the Company or any other authorized person by him, on or before Tuesday, May 14, 2024 and communicated to the Stock Exchanges, Depositories, and shall also be displayed on the Company's website i.e. www.niitmts.com and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com.

In case of any queries, members may refer Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting user manual available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com

> By Order of the Board For NIIT Learning Systems Limited

Place: Gurugram Date: April 09, 2024

Deepak Bansal Company Secretary NUT

गरा

30

र्डएन

दिपुर

क

and.

प्रमान

बैठव

8

हो

फार

एव

र ले

नीओं

दिन

कि

प

दपर

नेटेड

राक)

7782

(4

53

103 in

SERVICES

MANAGED एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड TRAINING पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं0. 85, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया,

गुरूग्राम - 122001, (हरियाणा) CIN: U72200HR2001PLC099478; फोन नo.: 0124- 4293000

वेबसाइटः www.niitmts.com; ईमेलः investors@niitmts.com

हाक मतपत्र सचना

सदस्यों को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की घारा 110 के साथ पठित घारा 108 के प्रावधानों एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 एवं 22, भारतीय प्रतिमूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियम") के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानक (''एसएस-2'') प्रत्येक यथासंशोधित के अनुसरण में और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा अपने सामान्य परिपन्न सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और नवीनतम सामान्य परिपन्न सं. 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 ("एमसीए परिपन्न") एवं जारी किए गए सूचीयन विनियम एवं अन्य लागू परिपत्र एवं अधिसूचनाएं (वर्तमान में उस पर लागू कोई सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन एवं समय-समय परयथासंशोधित सहित) के माध्यम से आम बैठकों के आयोजन / ई-वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र प्रक्रिया के आयोजन के लिए निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी ने केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को मंगलवार, 9 अप्रैल, 2024 को डाक मतपत्र सूचना भेज दी है जिनके नाम शुक्रवार, 5 अप्रैल, 2024 अर्थात् कट—ऑफ तिथि को सदस्यों के रिजस्टर/डिपॉजिटरीज से प्राप्त लागार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं। एमसीए परिपत्रों के माध्यम से सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना की भौतिक प्रति मेजने की आवश्यकता को हटा दिया गया है। एमसीए परिपत्रों के संदर्भ में सदस्यों की सहमति या असहमति केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ली जाएगी।

कंपनी अपने सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का उपयोग करके अपने वोट देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

डाक मतपत्र सूचना के माध्यम से और उसमें सदर्भित व्यवसाय की मद के निष्पादन से संबंधित दस्तावेज ई-मेलः investors@niitmts.com पर अनुरोध मेजने पर कंपनी द्वारा अपने सदस्यों के लिए निरीक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध कराये जाएँगे।

सदस्यगणों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिमागी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकत / अपडेट कराएं।

ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर / डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लामार्थी स्वामियों (इलेक्ट्रॉनिक शेयरघारिता के मामलें में) की सूची में दर्ज होगा, केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देने के लिए योग्य होंगे। सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की प्रदत्त इक्किटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के आनुपातिक होगा। रिमोट ई-वोटिंग अवधि गुरुवार, 11 अप्रैल, 2024 (प्रातः 9:00 बजे आईएसटी) प्रारंम होगी और शुक्रवार, 10 मई, 2024 (सायं 5:00 बजे आईएसटी) समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद उसे किसी भी स्थिति में बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी।

एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लिंक www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है जो शेयरधारक को इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट देने के लिए सक्षम करेगा।

रिमोट ई-वोटिंग और ईमेल पते के पंजीकरण के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं जानकारी शेयर घारकों को भेजी गई डाक मतपत्र सूचना में, दी गई है और कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.niitmts.com पर उपलब्ध है।

निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाक मतपत्र के आयोजन के लिए श्री मिलन मलिक (सदस्यता सं. एफसीएस 9888 एवं सीओपी नं. 16614), पेशेवर कंपनी सचिव या उनकी अनुपस्थिति में श्री संजय चांडक (सदस्यता सं. एफसीएस 5065 एवं सीओपी नं. 3691), पेशेवर कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

प्रस्ताव, यदि अनुमोदित हो जाता है तो इसे ई—वोटिंग की अंतिम तिथि अर्थात् 10 मई, 2024 को पारित माना जाएगा। डाक मतपत्र का परिणाम कंपनी के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मंगलवार, 14 मई, 2024 को या उससे पूर्व घोषित किया जाएगा और इसकी सचना स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरीज को भी दी जाएगी और इसे कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.niilmls.com और एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsd.com पर मी प्रदर्शित किया जाएगा।

किसी भी पूछताछ के लिए, सदस्यगण <u>www.evoling.nsdl.com</u> के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें या 022-4886 7000 पर सम्पर्क कर सकते है या evoting@nsdl.com पर अनुरोध मेज सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से कृते एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड

स्थानः गुरुग्राम ब्रिथिः 09 अप्रैल, 2024

हस्ता./-दीपक बंसल कंपनी सचिव

HDB STRANGIAL

जबकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 ततात प्रकारित का निर्माण के निर्माण किया हुए। जो आधार किया है जो है, को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उघारकर्ताओं से उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को नोटिस की प्राप्त की ह, जो नार नावित्त जात क्या है, जिस्से व्यवस्थाल व उपनाहित्य ने शिल्याका राहि को नावित्त जाति है। वारीख से 60 दिनों के अंदर मुनातान की तारीख से लेकर वास्तिक तक समि लागतीं, सुराती और व्ययों के साथ चुकाने के लिए कहा गया है। उक्त ऋणीं/शह-च्छारकर्ता राहि। का भुगतान करने में विफल रहे हैं। एतहवारा ऋणीक्सह-उद्यारकर्ता और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पटित उक्त अधिनियम की धारा 14 की धारा 13(4) के तहत उन्हें दी गई शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताबारी ने साथ में उदिलखित तिथि को मीतिक कब्जा कर दिया है। उधारकतीओं को विशेष रूप से और आम तौर पर सार्वजनिक रूप से संपत्ति के साथ सीदा नहीं करने के लिए चेतावनी दी जाती है और संबैति के साथ कोई भी सविज्ञानक रूप संरक्षित तिथि से मेरियम के व्याज, लगत और सुक्क के साथ यहां निर्देश्य राशि के लिए एचडीबी फाइनींश्रेयल तेन-देन संबंधित तिथि से मेरियम के व्याज, लगत और सुक्क के साथ यहां निर्देश्य राशि के लिए एचडीबी फाइनींश्रेयल सर्दिक्षेज लिमिटेड के अधीन होगा। कब्जे में ली गई संपत्ति का विवश्ण नीचे दिया गया है। उधारकर्ता इसह-उधारकर्ताओंध्यारंटरों का नाम और पता, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, मांग नोटिस की तिथिः रूपये में दावा

की गई राशि, प्रतिभूतियों का विवरण, कब्जे की तिथि 1) उचारकर्ता/सह-उचारकर्ताओं/गारंटरों का नाम और पता, 2) ऋण खाता संख्या, 3) ऋण राशि, 4) मांग नोटिस की तिथि: 5) रुपये में दावा की गई राशि, 6) प्रतिमूर्तियों का विवरण, 7) कब्जे की तिथि

YES BANK

पंजीकृत कार्यालय : यस बैंक भवन, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, पर्वात्रक्ष । यत क्या नया, जान उपार प्रात्त्र व्यवस्था स्थातात्र्रुण पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्रः — 400055 शाखा कार्यालय : मूखंड सं. 1/9, पटेल नगर (पश्चिम), नई दिल्ली–110008 वेबसाइट : www.yesbank.in

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतदृद्वारा जनसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ता(ओ) एवं गारंटर(ओ) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक अधिग्रहण यस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी अर्थात् प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा किया जा चुका है, उसका विक्रय 10 मई 2024 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" एवं "वहां जो कुछ भी है" आधार पर किया जायेगा, जो कि प्रतिभूत ऋणदाता (1) श्री अनुज कुमार पाठक एवं (2) सुश्री मनीता पाठक की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय-मुग्तेय संविदाकृत दर पर निर्धारित भावी ब्याज एवं शुल्कों के अधीन 08-फरवरी-2023 के अनुसार देय रु. 13,78,526.60 (रुपये तेरह लाख अट्ठहत्तर हजार पांच सौ छब्बीस एवं साठ पैसे मात्र) की राशि की क्सूली के लिये किया जायेगा। आरक्षित मूल्य रु. 8,82,000/— (रुपये आठ लाख बयासी हजार मात्र) है तथा धरोहर राशि जमा रु. 88,200/- (रुपये अट्ठासी हजार दो सौ मात्र) है।

इच्छुक पार्टियों / निविदाकर्ताओं द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरांत 02 सितंबर 2023 को मध्या. 11.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक उल्लिखित संपत्तियों का निरीक्षण किया जा सकता है।

संपत्ति का विवरण

प्लैट नं.- एफएफ-4 (छताधिकार के बिना), जिसका क्षेत्रफल लगभग 42 वर्ग मीटर है, जो एल.आई.जी के स्वरूप में, भूखंड सं. डी-397 पर, इंद्रप्रस्थ योजना, लोनी, गाजियाबाद, तहसील / जनपद -गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश मे स्थित है। सीमायें : विक्रय विलेख के

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 10 मई 2024 को 11 से 2 बजे, 5 मिनट प्रत्येक के विस्तार के साथ। बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 08 मई 2024 को अप. 3 बजे तक संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय : 26 अप्रैल 2024 को 11 से 12.30 बजे

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शतों के लिये कृपया http://10.0.49.5/about-us/media/auction-property-प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् www.yesbank.in पर दिये गये लिंक को देखें। निविदा प्रलेखों / ई-बोलीदान सूची प्राप्त करने में होनेवाली किसी भी किउनाई या अचल संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों के निरीक्षण के विषय में तथा प्रश्नों के लिए, कृपया यस बैंक लिमिटेड के संबंधित पदाधिकारियों, श्री मनीष कुमार, संपर्क नं. 919250003060 एवं ई-मेल : manish.kumar51@yesbank.in से तथा मैसर्स ई प्रोक्योंरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (नीलामी टाइगर) अहमदाबाद के पदाधिकारियों तथा बोलीदाता सहायता नंबर : +91 9265562821 / 18 और 9978591888, 079— 68136880 / 68136837, ई-मेल support@auctiontiger.net और ramprasad@auctiontiger.net, संपर्क 'व्यक्ति : श्री राम शर्मा-9978591888 से संपर्क करें। अधिनियम की धारा, 13(8) के तहत विचारितानुसार यदि हमारें द्वारा प्रदत्त सभी लागतीं, शुल्कों और व्ययों के साथ हमारी बकाया राशियों का भुगतान, नीलामी / विक्रय सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय कर दिया जाता है, तो हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जायेगा, तथा प्रतिभूत परिसर्पिति के हस्तांतरण अथवा विक्रय हेतु हमारे द्वारा कोई भी आगामी कार्रवाई नहीं की जायेगी।

उधारकर्ता / गारंटरों के लिये विक्रय सूचना

उपरोक्त को दायित्वधारकों के लिये, प्रकाशन की तिथि से 15 दिवसों के अंदर उपर्युक्त बकाया राशि का मुगतान करने हेतु, प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत सूचना के समझा–माना जारा।

दिनांक : 10-04-2024, स्थान : दिल्ली .

इस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

YES BANK

पंजीकृत कार्यालय : यस बैंक भवन, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हास्वे,

सातानुष्य पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र - 400055 शाखा कार्यालयः भूखंड सं. 1/9, पटेल नगर (पहिचम), नई दिल्ली-110008 वेबसाइट : www.yesbank.in

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सुचना।

एतदृद्वारा जनसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को सूचित कियां जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक अधिग्रहण यस बँक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी अर्थात् प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा किया जा चुका है, उसका विक्रय 10 मई 2024 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" एवं "वहां जो कुछ भी है" आधार पर किया जायेगा, जो कि प्रतिभूत ऋणदाता (1) मि. अलीहसन अयूब और (2) मिस. अंजुम नाज की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय-मुग्तेय संविदाकृत दर पर निर्धारित भावी ब्याज एवं शुल्कों के अधीन 01-फर-2023 के अनुसार देय रु. 21,00,672.08 (रुपये इक्कीस लाख छह सौ बहत्तर एवं आठ पैसे मात्र) की राशि की वसूली के लिये किया जायेगा। आरक्षित मूल्य रु. 17,00,000 / – (रुपये सन्नह लाख मात्र) है तथा धरोहर राशि जमा रु. 1,70,000/- (रुपये एक लाख सत्तर हजार मात्र) है।

संपत्ति का विवरण

मुखंड भं. 119, एलआईजी, फ्लैट नं. एफएफ–1, प्रथम तल, ब्लॉक–सी, चार्म्स–5, शालीमार गार्डन एक्स.-।।, ग्राम-पसोंदा, परगना-लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

ई नीलामी की तिथि एवं समय : 10 मैंई 2024 को 11 से 2 बजे, 5 मिनट प्रत्येक के विस्तार के साथ।

बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 08 मई 2024 को अप. 3 बजे तक

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय : 26 अप्रैल 2024 को 02.30 से 03.30 बजे

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया http://10.0.49.5/about-us/media/auctionproperty- प्रतिमूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् www.yesbank.in पर दिये गये लिंक को देखें। निविदा प्रलेखों / ई-बोलीदान सूची प्राप्त करने में होनेवाली किसी भी कठिनाई या अचल संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों के निरीक्षण के विषय में तथा प्रश्नों के लिए, कृपया यस बैंक लिमिटेड के संबंधित पदाधिकारियों, श्री मनीष कुमार, संपर्क नं. 919250003080 एवं ई—मेल : manish.kumar51@yesbank.in से तथा मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (आक्शन टाइगर) अहमद्रामाद के पदाधिकारियों तथा बोलीदाता सहायता नंबर : + 91 9265562821, 079-61200594/598/568/587/538, ई–मेल : Gujarat@auctiontiger.net और Chintan.bhatt@auctiontiger.net से संपर्क करें।